

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्त में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ पन्ने हैं यह मापी पुस्त श्री अश्विनी उल्लाद राज्य सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रमण्डल.....पुड़िया.....को निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमण्डल, मध्यराज्य  
पुड़िया

Sch. XLV—Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

## Measurement Book

No. 2758

Name of Officer \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

Name to work—  
 Situation of work—  
 Agency by which work is executed—  
 Date of measurement—  
 No. and date of agreement.  
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L.	B.	D.		
<u>T &amp; on A/C Bill.</u>						
<u>Name of work:- MR-NV/2022-2023/</u>						
<u>Machubani/02 output \$</u>						
<u>Performance Based Maint.</u>						
<u>of Road S.C.T. under 3054 M/R</u>						
<u>Name of Road:- Sakuri Chawkti</u>						
<u>Tamia Masjid Sibbotan</u>						
<u>to da road.</u>						
<u>Name of Agency:- Lulu Hitech</u>						
<u>Works Pvt. Ltd, Prob-</u>						

Sudarshan Natho

Agreement No:- 15/MBD/2022-23

Date Work start:- 19.10.2022

Date of Comp.- 18.07.2023

Items

1. Clearing and Grubbing of  
road land.

$$2 \times 20 \times 30.40 \times 1.25 = 1350.00 \text{ m}^2$$

$$= 0.135 \text{ Hect.}$$

2. Excavation for roadway

in soil:

$$2 \times 19 \times 30.40 \times 0.695 \times 0.175 = 124.69 \text{ m}^3$$

$$2 \times 1 \times 30.40 \times 0.30 \times 0.175 = 3.15 \text{ m}^3$$

$$127.84 \text{ m}^3$$

*Continuation*

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					$BIT - 637.44, 337 = 0$
8/7 (iii) Providing & fixing of 90mm stone.					
Qty. side TMB PMG					
2 M3 CM 752 each					$15052 = 0$
9/8 Providing & fixing of retro-reflectorsized traffic signs.					
Qty. side TMB PMG 637.					
(i) 60mm equilateral triangle. - 14 nos.					
CM 4277 = 7.9 each - 59889 = 0					
(ii) 60mm circular					
4 nos. @ M 4213 = 7.3 each M 16,855 = 0					
viii) 600mm x 150mm rectangular - 2 nos.					
@ M 4070 = 10 each - 18140 = 0					
(iv) 90mm side octagon					
1 nos. @ M 5511 = 7.3 each - 18515 = 0					
10/9 Providing & fixing of boundary pillars					
Qty. side TMB PMG 7					
6 M3. @ M 613 = 55 each - 3681 = 0					
11/11 Providing & fixing of hot applied thermoplastic compounds.					
C/D - M 38,42,922 = 0					

Continuation

## Sch. XLV—Form No. 134

13

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					31/2 - M 38,42,972 =
					94.4 - M 38,42,972 =
	(i) GtY - 12.40 m <sup>2</sup>				
					CM 920 = 04/m <sup>2</sup> - M 11040 =
	(ii) GtY - 127.40 m <sup>2</sup>				
					CM 920 = 04/m <sup>2</sup> - M 117,913 =
12/12	Prorating & fixing of				
	M.M.G.S.Y. information				
	board width etc.				
	GtY - M 38,42,972 =				
	3 Nos. E 910063 = 74 each M 30/91 =				
					M 30,31,366 =
	Addl 12% C.R.S.T. - M 480164 =				
	Addl 1% L.C.P.S. - M 40014 =				
	Addl S. Fee - M 58,253 =				
					M 45,79,797 =
	Deduct 13.29% below				
	as per Agreement M 6,08,655 =				
					M 39,71,142 =
	Deduct previous				
	Payment - M 39,71,142 =				
					TM D = 0 only.
	by 27/3/23				
	J.E.				
	The Work has been completed				
	as per specification direction				
	of E/I. Continuation				
	by 27/3/23.				
	J.E.				